



यात्रा/सफर

हम चले
तो घास ने हट कर हमें रास्ता दिया
हमारे कदमों से छोटी पड़ जाती थी पगडंडियाँ
हम घूमते रहे घूमती हुई पगडंडियों के साथ ।
-कुमार अनुपम ।

लीक पर वे चलें जनिके
चरण दुर्बल और हारे हैं
हमें तो जो हमारी यात्रा से बने
ऐसे अनरिमति पन्थ प्यारे हैं ।
-सर्वेश्वरदयाल सक्सेना ।

किसी को घर से नकिलते ही मलि गई मंजलि ।
कोई हमारी तरह उम्र भर सफर में रहा ।
-अहमद फराज ।

है कोई जो बताए शब के मुसाफरिों को
कतिना सफर हुआ है कतिना सफर रहा है ।
-शहरयार

